

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 767

No. 58]

DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

[N.C.T.D. No. 767

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2019

फा.स. 47/डब्ल्यू.एफ.डी./सी.ओ.टी./18-19/2479-88—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मुंडेला कलाँ, दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो- के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.934 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	हटाए जाने वाले	प्रत्यारोपण किए जाने वाले	योग	
मुंडेला कलाँ, दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो- के निर्माण 1.934 हेक्टेयर में।	16	शून्य	16	160 उपभोगी संस्था द्वारा
योग	16	शून्य	16	160

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक दिल्ली परिवहन निगम को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 9,12,000/-रुपये (नौ लाख बारह हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्यकारी अभियंता, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट डिवीजन, एफ -14, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मुकरबा चौक दिल्ली द्वारा उसी परियोजना स्थल में किया जाएगा।	160	9,12,000/-	उप-वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन अधिकारी

- (ख) 160 पौधों का 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा और उनका सात वर्षों तक रखरखाव तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद निम्न प्रकार निगरानी की जाएगी :-
- (i) देशी प्रजातियों के 160 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण चारदीवारी के साथ किया जाएगा जिसकी लंबाई 680 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है और इसका कुल क्षेत्रफल 1700 वर्ग मीटर है।
- (ग) वृक्षों की कटाई की अनुमति उनके स्वयं के जोखिम/ज़िम्मेदारी पर दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों की भूमि पर सही हो सकती है।
- (घ) 16 वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ी की नीलामी भूमि स्वामित्व संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार को राजस्व के रूप में जमा कर दी जाएगी।
- (ङ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (च) वृक्षों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए और प्राप्त रसीद को उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) को जमा की जाए।
- (छ) वृक्षों की कटाई और प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ संबन्धित गतिविधि उपरान्त जमा की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

-ह.-

मधुप व्यास, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th March, 2019

F.No.47/WFD/COT/18-19/ 2479-88.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 1.934 hectare approx as detailed below for construction of DTC Bus Depot at Mundela Kalan, Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location.	No of trees to be			Compensatory plantation required. (Number of trees)
	Felled	Transplanted	Total	
Construction of DTC Bus Depot at Mundela Kalan, Delhi in 1.934 hectare.	16	Nil	16	160 by User Agency.
Total	16	Nil	16	160

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

- (a) The applicant viz Delhi Transport Corporation shall make an advance deposit of an amount of Rs. 9,12,000 /- (Rupees Nine Lakh Twelve Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

SN	Location of Compensatory Afforestation plantation.	Number of saplings to be planted (Number of trees).	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
1.	100% Compensatory Plantation will be carried out by Executive Engineer, Flyover Project Division, F-14, Public Works Department, Govt. of NCT of Delhi, Mukarba Chowk, Delhi at the project site.	160	9,12,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

- (b) 100% compensatory plantation of 160 will be raised and maintained by Public Works Department for Seven years and monitored till its successful establishment in following manner:-
- (i) Compensatory Plantation of 160 saplings of native species will be planted along boundary wall which is 680m in length and 2.5m in width which makes a total area of 1700 sq. mtr.
- (c) Permission for felling of all trees would be granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any right (s) over the land or the trees.
- (d) The timber obtained from felling/ transplanting of 16 trees shall be auctioned by the land owning agency and the proceeds shall be deposited as revenue to the Government.
- (e) Before shifting of timber if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from DCF/ Tree Officer (West).
- (f) The lops and tops obtained on removal of trees shall be handed over by the Delhi Transport Corporation to the officials concerned of Municipal Corporation of Delhi for its use on public crematoria in Delhi free of cost and receipt so obtained may be deposited with DCF (West).
- (g) The progress of felling of trees & compensatory plantation shall be submitted through Inspection Officer to DCF (West) after completion alongwith complete details of trees immediately.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

-Sd-

MADHUP VYAS, Secy. (Env. & Forests)